

बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ लि०
COOPERATIVE FISHERIES FEDERATION (COFFED)

Performa for Nomination of Delegate to the Special General Body of COFFED

1. Name of the Society/ समिति का नाम :
2. Address of the Society/ समिति का पता :
3. Name & Address of the Delegates/ प्रतिनिधि का नाम एवं पता :

Name of Delegate/ प्रतिनिधि का नाम	Designation (Chairman/Chief Executive/Secretary/Director/Member/ Administrator held by the delegate पद (अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक/मंत्री/सचिव/निदेशक/सदस्य/प्रतिनिधि द्वारा नियुक्त प्रशासक)	Address of the Delegate प्रतिनिधि का पता	Specimen Signature of the Delegate duly attested (with Photograph) अभिप्रमाणित फोटो सहित प्रतिनिधि का हस्ताक्षर
			<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">Photo</div> Signature (Name & Designation of the Person attesting the Signature)

4. Nominated vide resolution No..... dated (Name of the Nominating body i.e. General Body/Board of Director's/Executive Committee/others etc.)

Seal / मोहर :

Date/ दिनांक :

Signature of the Chairman/Chief Executive
Officer/Secretary/Director/Administrator of the
Society

Please attached certified copy of the fresh resolution.